

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – सप्तम

दिनांक - १५ - ०४ - २०२१

विषय - हिन्दी

विषय शिक्षक - पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे ।

पुरुषवाचक सर्वनाम

पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा

जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरो के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे - मैं, हम (वक्ता द्वारा खुद के लिए), तुम और आप (सुनने वाले के लिए) और यह, वह, ये, वे (किसी और के बारे में बात करने के लिए) आदि।

दूसरे शब्दों में- जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुननेवाले यानि श्रोता , कहने वाले यानि वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण

- मैं फिल्म देखना चाहता हूँ।
- मैं घर जाना चाहती हूँ।
- आप कहते हैं तो ठीक ही होगा।
- तुम जब तक आये तब तक वह चला गया।
- आजकल आप कहाँ रहते हैं।
- वह पढ़ने में बहुत तेज है।

पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं -

1. उत्तमपुरुष
2. मध्यम पुरुष
3. अन्य पुरुष

उत्तमपुरुष: जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात् जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि।

उदाहरण-

- मैं स्कूल जाऊँगा।
- हम मतदान नहीं करेंगे।

मध्यम पुरुष: जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं अर्थात् जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानि वक्ता , सुनने वाले यानि की श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे- तू, तुम, तुम्हे, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि।

उदाहरण-

- तुमने गृहकार्य नहीं किया है।
- तुम सो जाओ।

अन्य पुरुष: जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाये वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अर्थात् जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला , सुनने

वाले के अलावा जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल हैं। जैसे- वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि।

उदाहरण-

- वे मैच नहीं खेलेंगे।
- उन्होंने कमर कस ली है।